

भारत सरकार/ Government of India

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई मध्य के आयुक्त का कार्यालय

Office of The Commissioner of Central Goods & Services Tax and Central Excise, Mumbai

अनुसूची 'ए' (नियम एस. आर. 317 पी-4)/ Schedule 'A' (Rule S.R. 317 P.-4)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को वर्ष 2023-2024 के लिए आवास आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र

Application form for allotment of houses for the year 2023-2024 to Central Excise Officers

Paste
Photo:

अ.जा. /SC						
अ.ज.जा / ST						
स्थान Place	टाईप-ए/ I Type A/I	टाईप बी/ II Type B/II	टाईप-सी / III Type C/III	टाईप-डी/ IV Type D /IV	टाईप-डी IV(विशेष) Type D/IV Special	टाईप- डी /V Type D/ V
अंतोप हिल/ Antop Hill					X	X
भांडुप/ Bhandup					X	X
पेड्डर रोड/ Peddar Road	X	X		X	X	X
वडाला/ Wadala	X		X		X	
एन.डी. रोड/ N.D. Road	X	X	X	X		X
बी.के.सी/ B.K.C	X	X	X	X		X
बांद्रा(एम.आई.जी)/ Bandra(M.I.G)	X	X	X		X	X
पवई/ Powai	X	X	X		X	X
मलाड/ Malaad	X	X		X	X	X
ओशिवारा/ Oshiwara	X	X			X	X
गोराई/ Gorai	X			X	X	X

1.

(क) नाम श्री /श्रीमती /कुमारी/ Name (Ms/Mrs/Mr) :

(ख) वर्तमान पद/ Designation :

पैन सं./ PAN No. :

ई.मेल/ Email ID :

(ग) आधार क्रमांक / Aadhar No. :

(घ) धारित स्थायी/ अर्धस्थायी/ पद का विवरण
Nature of Job (Permanent/ On Probation) :

(ङ) वर्तमान कार्यालय का पता और दूरभाष सं.
Present Address of the Office and Telephone No. :

(कार्यालय के पते में उत्तरगामी परिवर्तन की सूचना दी जाए).....

(च) वर्तमान निवास का पता और दूरभाष सं.
Present Residential Address and Contact No :

(छ) जन्मतिथि/ Date of Birth :

(ज) नियुक्ति की तिथि/ Date of Joining :

(झ) सेवानिवृत्ति की तिथि/ Date of Retirement :

2. (क) 01-07-2022 को कुल परिलब्धियाँ

मूल वेतन/ Basic Pay	ग्रेड पे Grade Pay	प्रतिनियुक्ति भत्ता deputation allowance	वेतन के साथ में पेंशन Pension along with salary	कुल वेतन Total Salary

(ख) तिथि, जब से ऊपर (क) में निर्दिष्ट ग्रेड पे लिया जा रहा है

Date, since the grade pay specified in (a) above is being taken :

(पिछली वेतन वृद्धि की तिथि) Date of last salary hike :

(ग) यदि यह भारत सरकार की समेकित निधि से नहीं निकाला जा रहा है, तो स्रोत बताएं जिससे वेतन निकाला जा रहा है

If it is not being withdrawn from the Consolidated Fund of the Government of India, indicate the source from which the salary is being withdrawn.

3. आवासों का वर्गीकरण क्र.सं. 317 बी-5, अधिकारी निम्न तालिका में दर्शाए गए वर्ग के अनुसार आवास के आवंटन के लिए पात्र होंगे।
of Habitats No. 317 B-5, officers will be eligible for allotment of accommodation as per the class shown in the following table.

आवास के प्रकार Type of Quarter	ग्रेड पे Grade Pay	ग्रेड पे निकालने की तिथि Date of payment of grade pay
(1)	(2)	(3)
I	₹. 1300, ₹. 1400, ₹. 1600, ₹. 1650 तथा ₹. 1800	
II	₹.1900, ₹.2000, ₹. 2400 तथा ₹. 2800	
III	₹. 4200, 4600 तथा ₹. 4800	
IV	₹.5400 से ₹. 6600	
IV (विशेष)	₹. 6600	
V	₹. 7600	

4. क्या आप निश्चित लोकेशन पर पात्र आवास के आवंटन के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं और पसंद के क्रम में उस लोकेशन पर आवास के आवंटन के लिए अपनी वरिष्ठता सीमित करना चाहते हैं? Are you willing to apply for allotment of eligible accommodation at a certain location and limit your seniority for allotment of accommodation at that location in order of choice? हाँ / नहीं

5. सरकारी आवास का विवरण यदि कोई आवंटित हुआ है तो, If any details of government accommodation have been allotted,

(I) विभाग प्रमुख द्वारा by department head :

(ii) अन्य सरकारी विभाग द्वारा by other government departments :

(विभाग का नाम लिखें) (Write the name of the department)

6. (क) क्या आवेदक को सरकारी आवास के लिए प्रतिबंधित रखा गया है?

Is the applicant restricted from government accommodation?

हाँ/ नहीं

यदि ऊपर (क) का जवाब हाँ में है, तो विस्तृत जानकारी दीजिए।/ If the answer to (a) above is yes, give detailed information.

I. अवधि/ Duration from से तक / till

II. पत्र सं. और दिनांक/ Letter No. and date :

7. क्या अधिकारी किराया मुक्त आवास के लिए पात्र है? Are officers eligible for rent-free accommodation? हाँ/ नहीं

8. (क) क्या आवेदक /उनकी पत्नी /पति या आश्रित बच्चे या आश्रित पिता या आश्रित माता या कोई अन्य संबंधित आश्रित के नाम पर मुंबई में या कार्यस्थल पर कोई मकान है?/ Is there any house in Mumbai or at the workplace in the name of the applicant/his wife/spouse or dependent child or dependent father or dependent mother or any other concerned dependent? हाँ/ नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दीजिए। प्राधिकारी डी. डी.ओ./ सतर्कता द्वारा प्रमाणित किया जाए।

If so, give details. Authority D.D.O./D.O. Be certified by vigilance.

मकान सं. और मार्ग No. and the way :

मालिक के साथ संबंध with the owner :

और मलकियत की सीमा (Extent of ownership) :

(ख) यदि पात्र घोषित हैं तो पत्र सं. और पत्र की तिथि बताएं।

If the eligible are declared, then Letter No. And tell the date of the letter. :

(ग) प्राप्त मासिक किराया Monthly rent received :

(यदि बंद है तब मासिक किराया जो नगर निगम, निकाय द्वारा अपने खाते में गृह कर के निर्धारण के उद्देश्य से लिया जाता है।)

(If closed, the monthly rent which is charged by the Municipal Corporation, the body for the purpose of determining the house tax in its account.)

9. प्रतिभू (गारंटी) का विवरण, यदि अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन स्थायी / अर्ध-स्थायी पद धारण नहीं करते हैं तो

Details of the security (guarantee), if the officer is permanent/permanent under the Central Government. If you do not hold a semi-permanent post

नाम Name :

धारित पद Held post :

कार्यालय, जिससे संबंधित है. The office to which it belongs. :

क्या प्रतिभू विद्यमान है? Does the reward exist? :

घोषणा declaration

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैं राजस्व विभाग और कंपनी कानून आवंटन नियम, 1964 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के तहत आवासों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए विवरण सत्य और ठीक हैं और मुझे किया जाने वाला आवंटन या पहले से ही आवंटित, इन नियमों और बाद में संशोधनों यदि कोई हो, के अधीन होगी और मैं उनके अनुपालन के लिए सहमत हूँ।

It is certified that I agree to comply with all rules governing the allocation of accommodations under the Department of Revenue and the Companies Law Allocation Rules, 1964 and amendments made from time to time and declare that the details given by me are true and correct and that the allocation to be made to me or already allotted, these rules and subsequent amendments, if any, will be subject to and I agree to comply with them.

2. मैं झूठी सूचना देकर पात्र प्रकार के आवास के आवंटन को स्वीकार करने से मना करने की दशा में दंड (सजा) अधिरोपित करने के बारे में अवगत हूँ। / I am aware of imposing penalty (punishment) in case I refuse to accept allotment of eligible type of housing by giving false information.

3. मैं उपयुक्त (पात्र) कार्यालय में कार्य कर रहा हूँ। I am working in the appropriate (eligible) office.

आवेदक के हस्ताक्षर/ Signature of the Applicant

नाम/ Name:

पद/ Designation:

अग्रसरण अधिकारी द्वारा भरा जाए/ To be filled by the forwarding officer

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण अभिलेख से पूरी तरह सत्यापित कर लिए गए हैं और सत्य पाए गए।
It is certified that the details given by the applicant have been fully verified from the record and found to be true

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक एक मात्र कार्यालय में कार्यरत है।

It is certified that the details given by the applicant have been fully verified from the record and found to be true

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किराया मुक्त आवास का हकदार है।

It is certified that the applicant is entitled to rent free accommodation.

हस्ताक्षर (दिनांक और कार्यालय मोहर सहित): Signature (including date and office seal):

नाम/ Name:

पृष्ठांकन (पुष्टि सं.)/ Pagination (Confirmation No.) :

पद/ Designation :

दिनांक/ Date : दूरभाष सं./ Phone No. :